

संगीतः आदित्य माथुर संगमः सहली (सा ग प नि) जगदीश २७, २००२

स्त्री Female Chorus  
पु Male Chorus

१ स्त्री पु १ - - - - - प सा १  
२ स्त्री पु १ - - - - - प सा १  
३ स्त्री पु १ - - - - - प सा १

पु १ - - - - - प सा १

पु १ - - - - - प सा १


३ स्त्री पु १ - - - - - प सा १

पु १ - - - - - प सा १

४ स्त्री (ग)जा - न - म - र्म - र - व - वि - से - वि रम - - - - - सा १  
पु १ - - - - - प सा १

५ स्त्री पु १ - - - - - प सा १ १ - - - - - प सा १  
पु १ - - - - - प सा १

६ स्त्री (क) ति - न्द - व - - - - - क - ज - सा - र - - - - - सा १  
पु १ - - - - - प सा १



गजानन (श्लोकम्)



ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो

English translation:

He who has the face of an elephant, one who is worshipped by the Bhooda ganam. He who eats the essence of kabitha and ~~Uma~~ *Uma* the son of Uma Devi and he who alleviates the ill feelings in us. O! Lord Vigneshwara who is an embodiment of all the above, we offer our Namaskarams at your Divine feet.

The End

English Transliteration:

Gajananam Bhoota Ganadi Sevitam  
Kapitha Jambhu Phalasar Bhakshitam  
Umasutam Shoka Vinasha Karanam  
Namami Vigneshawara Pada Pankajam

The End